



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 13-जुलाई 19, 2008, शनिवार/आषाढ़ 22-आषाढ़ 28, 1930
No. 29] NEW DELHI, JULY 13-JULY 19, 2008, SATURDAY/ASADHA 22-ASADHA 28, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II-Section 3-Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 137.-राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2008 है ।
(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- अनुसूची 2 में शीर्ष "IV साधारण ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी सब काडर पद" के अधीन मद सं. (ण) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :-

अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता-28

टिप्पण :- "अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में चिकित्सा अधिकारी और महिला चिकित्सा अधिकारी के समूह 'ग' पद के धारक पदधारी स्वतः केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सदस्य नहीं होंगे किन्तु उनका प्रवेश संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनकी उपयुक्तता का निर्धारण के अधीन होगा" ।

[सं. ए-11016/4/2001-सीएचएस-V(पीटी)]

पवन कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण : —मूल नियम सा.का.नि. सं. 460 (अ) तारीख 8-10-96 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ति संशोधन निम्नलिखित संख्यांक द्वारा किए गए :—

- (1) सा.का.नि. 633(अ) तारीख 14-10-1998
- (2) सा.का.नि. 572(अ) तारीख 27-7-1999
- (3) सा.का.नि. 262(अ) तारीख 30-3-2001
- (4) सा.का.नि. 564(अ) तारीख 30-7-2001
- (5) सा.का.नि. 22(अ) तारीख 09-01-2003
- (6) सा.का.नि. 654(अ) तारीख 31-10-2005
- (7) सा.का.नि. 14(अ) तारीख 13-1-2006 और
- (8) सा.का.नि. 140 तारीख 14-7-2007

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 10th July, 2008

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 1996, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In Schedule-II, under heading “IV General Duty Medical Officer (GDMO) sub-cadre Posts” for item (O) and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

All India Institute of Hygiene and Public Health (AIHH & PH), Kolkata —28

Note : “The incumbents holding the Group ‘C’ post of Medical Officer and Lady Medical Officer in All India Institute of Hygiene and Public Health, Kolkata shall not automatically become members of CHS, but their induction shall be subject to assessment of their suitability in consultation with the Union Public Service Commission”.

[No. A-11016/4/2001-CHS-V (Pt)]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published *vide* number GSR 460 (E) dated 8-10-96 and subsequently amended *vide* the following numbers :—

- (1) GSR No. 633(E), dated 14-10-1998
- (2) GSR No. 572(E), dated 27-7-1999
- (3) GSR No. 262(E), dated 30-3-2001
- (4) GSR No. 564(E), dated 30-7-2001
- (5) GSR No. 22(E), dated 9-1-2003
- (6) GSR No. 654(E), dated 31-10-2005
- (7) GSR No. 14(E), dated 13-1-2006 and
- (8) GSR No. 140 dated 14-7-2007

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जून, 2008

सा.का.नि. 138.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली (समूह ‘क’ और समूह ‘ख’) भर्ती नियम, 1963 को, जहां तक उनका संबंध कीपर (प्रदर्शनी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय में संग्रहाध्यक्ष (प्रदर्शनी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहाध्यक्ष (प्रदर्शनी) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा स्वीकार्य है	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. संग्रहाध्यक्ष (प्रदर्शनी)	1* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	10000-325- 15200 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	40 वर्ष से अनधिक टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
---	--	-------------------------------	---

(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वास्तु या डिजाइन में स्नातक उपाधि या समतुल्य । (ii) कला और संस्कृति के क्षेत्र में अस्थायी प्रदर्शनियों और स्थायी दीर्घाओं की योजना, आयोजन करने, प्रस्तुतीकरण और स्थापित करने के अनुभव सहित किसी वास्तुशिल्पीय कार्यालय में पांच वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में अभिलेख किए गए कारणों से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में लिखित में अभिलेख किए गए कारणों से शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । वांछनीय : 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा या समतुल्य 2. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय/क्षेत्रीय महत्व के किसी संग्रहालय में संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती पर आने वालों के लिए 1 वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
---	---	--

(12)	(13)	(14)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/ विश्व-विद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम/अर्द्ध सरकारी/कानूनी/स्वायत्त संगठनों के अधीन	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) :- 1. संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है ।

(12)

(13)

वे अधिकारी :

- (क)(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8000-13500 रुपए के वेतनमान या समतुल्य में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; और

(ख) जिन्हें स्तम्भ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव हो।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है), जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. महानिदेशक, राष्ट्रीय

संग्रहालय

—सदस्य

3. निदेशक/उपसचिव,

संस्कृति मंत्रालय

—सदस्य

[सं. एफ. 6-15/2002-एम-I (भाग-VI)]

एन. पी. जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 23rd June, 2008

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Museum, New Delhi (Group 'A' and Group 'B') Recruitment Rules, 1963 in so far as they relate to the post of Keeper (Display) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Curator (Display) in the Ministry of Culture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Culture, National Museum, New Delhi, Curator (Display) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

2550 GI/08-2

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Curator (Display)	01* (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10000-325-15200	Not applicable	No	Not exceeding 40 years. Note 1 : Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : (i) Bachelor's Degree in Architecture/ Design from recognized university/ institution or equivalent. (ii) Five year's experience in an Architectural office including experience of planning, organizing, presentation and setting up of temporary exhibitions and permanent galleries in the field of art and culture. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	1 year for direct recruits	Deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.

(8)

Note 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Desirable : (i) Diploma in Museology from a recognized university/institution or equivalent.

(ii) Five years' experience in the relevant field in a museum of national/regional importance under the control of Central Government/State Governments/Union Territories.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
<p>Deputation (including short-term contract) : Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/universities/recognized research institutions / public sector undertaking/semi-Government/statutory or autonomous organisations.</p> <p>(a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay Rs. 8000-13500 or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col. 8.</p> <p>Note 1: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Secretary, Ministry of Culture —Chairman 2. Director General, National Museum —Member 3. Director/Deputy Secretary, Ministry of Culture —Member 	<p>Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p>

(12)

Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[No. F. 6-15/2002-M-I (Part-VI)]

N. P. JOSHI, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2008

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (तकनीकी लिपिक) भर्ती नियम, 1977 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तकनीकी लिपिक (आर्थिक) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय तकनीकी लिपिक (आर्थिक) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट होंगी।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा के जुड़े वर्षों का लाभ मिलेगा	सीधे भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. तकनीकी लिपिक (आर्थिक)	23* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अनुसूचिवीय)	रु. 4000-100-6000	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में तीन वर्ष तक शिथिल की जा

(7)

सकती है) केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए अनु-देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती/नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएँ	क्या सीधी भर्ती हेतु आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएँ, प्रोन्नति पाने वाले के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)	(11)
आवश्यक :— किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्व-विद्यालय से सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण। टिप्पण :— सीनियर सेकेंडरी स्तर पर एक विषय के रूप में कामर्स रखने वाले विद्यार्थियों को अधिमानता दी जाएगी।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत

2550 GI/08-3

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों, में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति में सम्मिलित होंगे :— 1. अपर आर्थिक सलाहकार —अध्यक्ष 2. अवर सचिव —सदस्य (आर्थिक प्रशासन) 3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य किसी सदस्य या अध्यक्ष के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदाय न होने के मामले में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के समुदाय का सदस्य सहयोजित किया जा सकेगा।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/1/2004-आ.प्र.]

डी. के. राय, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)

New Delhi, the 11th July, 2008

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate of Economics and Statistics, (Technical Clerks) Recruitment Rules, 1977, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Clerk (Economics) in the Directorate of Economics and Statistics in the Department of Agriculture and Cooperation of the Ministry of Agriculture, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Economics and Statistics, Technical Clerk (Economics) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Technical Clerk (Economics)	23* (2008) *Subject variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Non-Selection	No	Between 18 to 27 years (Relaxable by five years in case of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and three years in case of Backward classes and in case of Government servants, age relaxation shall be in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)	(11)
Essential : Senior Secondary School pass from a recognized Board or University. Note : Preference shall be given to the candidates having Commerce as a subject at Senior Secondary level.	Not applicable	Two years for direct recruits	Cent Per cent by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commissions is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)	(14)
Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. Additional Economic adviser —Chairman 2. Under Secretary (Economic Administration) —Member 3. Chief Administrative Officer —Member A member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes community may be co-opted in case none of the Members or Chairman belongs to Scheduled Castes or Scheduled Tribe community.	Not applicable.

[F. No. A- 12018/1/2004-EA]

D. K. ROY, Under Secy.